

प्रेषक,

योगेश कुमार चौधरी  
सिविल जज जू०डि०,  
उतरौला, बलरामपुर।

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक महोदय,  
माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय  
बलरामपुर।

विषय:- वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-24 को सुधार कर उचित प्रविष्टि दिये जाने के संबंध में प्रत्यावेदन-

महोदय,

ससम्मान निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय बलरामपुर द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2023-24 के कॉलम 2. Over all assessment of the merit of the Officer ( Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)- में Good की प्रविष्टि प्रदान की गयी है एवं कॉलम 01(f)(ii)Appreciation of evidences- में Lack of proper appreciation of evidence, Cross Examination is not discussed की प्रविष्टि की गयी है। माननीय महोदय उक्त प्रविष्टि के संबंध में प्रार्थी का निम्नलिखित निवेदन है-

1- प्रार्थी द्वारा वर्ष 2023-24 में अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए विधि संगत तरीके से न्यायिक कार्य किया गया। उक्त अवधि में प्रार्थी द्वारा कुल 23 वाद गुण दोष के आधार पर निर्णित (Contested Judgement) किये गए।

2- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 3916 वादों का निस्तारण किया गया।

3- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित एक्शन प्लान (Action Plan) से आच्छादित सभी 25 वादों का निस्तारण किया गया जिसमें 36 वर्ष प्राचीन 01 वाद, 35 वर्ष प्राचीन कुल 03 वाद, 34 वर्ष प्राचीन कुल 05 वाद, 33 वर्ष प्राचीन कुल 02 वाद, 32 वर्ष प्राचीन कुल 07 वाद, 31 वर्ष प्राचीन कुल 06 वाद, 30 वर्ष प्राचीन कुल 01 वाद का निस्तारण किया गया।

4- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में 10 वर्ष तक के प्राचीन कुल 65 वादों का निस्तारण किया गया।

5- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में 05 वर्ष तक के प्राचीन कुल 153 वादों का निस्तारण किया गया।

6- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में वर्ष 2000 से पूर्व कुल 40 वादों का निस्तारण किया गया।

7- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में कुल 201 पेज साक्ष्य अंकित किये गये एवं धारा 200 व धारा 202 दं०प्र०सं० में कुल 204 बयान अंकित किये गए। कुल 86 वादों में आरोप विरचित किये गए व

कुल 251 जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया एवं धारा 203 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कुल 78 वादों का निस्तारण किया गया। सुलह समझौते के माध्यम से धारा 320 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत कुल 16 वादों का निस्तारण किया गया, कुल 27 अन्तिम रिपोर्ट का निस्तारण एवं कुल 27 कमिटल योग्य पत्रावलियों की सत्र सुपुर्दगी की गयी इस प्रकार प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कार्य मानक 1200 यूनिट (Actual required unit 704.72 Unit) के सापेक्ष कुल 1563.11 यूनिट का कार्य किया जो कि कुल कार्यदिवसों (Working days) के अनुपात में 221.80 प्रतिशत है।

8- प्रार्थी द्वारा उक्त अवधि में दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश एवं होली अवकाश के दिनों में मुख्यालय पर रहकर रिमाण्ड ड्यूटी निष्ठापूर्वक की गयी।

माननीय महोदय प्रार्थी के इतना अधिक कार्य करने के बावजूद भी श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय बलरामपुर द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2023-24 के कॉलम 2. Over all assessment of the merit of the Officer ( Outstanding, Very Good, Good, Average, Poor)- में Good की प्रविष्टि प्रदान की गयी है। प्रार्थी जिसके उन्नयन की सविनय प्रार्थना करता है।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय बलरामपुर द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2023-24 के कॉलम 01(f)(ii) Appreciation of evidences- में Lack of proper appreciation of evidence, Cross Examination is not discussed की प्रविष्टि दी गयी है। जिसके संबंध में प्रार्थी का निवेदन है कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2023-24 के कॉलम 01(f)(ii) में ऐसी किसी पत्रावली/ किसी विशिष्ट प्रतिपरीक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है जिसकी प्रतिपरीक्षा की प्रार्थी द्वारा अपने निर्णय में परिचर्चा न की गयी हो। यहां यह तथ्य उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा अपने Self Assessment में जो 03 Contested Judgement संलग्न किये गये उनमें भी Cross Examination की परिचर्चा की गयी है। माननीय महोदय साक्ष्य हेतु तीनों निर्णयों की प्रतियाँ संलग्न हैं।

श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि 2023-24 के कॉलम 01(f). Whether Judgement on facts and on law are on the whole sound, well reasoned and expressed in good language? में **Good** के रूप में प्रविष्टि दी है जबकि कॉलम 01(f)(iv)..Judgement/Order writing capability:(Please comment on the quality of the passing writing Judgement/Order) (Category in which the Judgements are to be placed, viz. A- Outstanding, A-Very Good, B-Good, B-Average/satisfactory, C-Below Average)- में **Average** की प्रविष्टि प्रदान की गयी है। इस प्रकार श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा कॉलम 01(f). तथा कॉलम 01(f)(iv). में दी गयी प्रविष्टि स्वयं में विरोधाभासी है।

3

माननीय महोदय प्रार्थी अभी जूनियर डिवीजन कैडर का न्यायिक अधिकारी है और कड़ी मेहनत एवं पूर्ण निष्ठा से कार्य करते हुए प्रार्थी ने **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों से अधिक कार्य किया है**, अतः सेवा के प्रारम्भिक स्तर पर ही ऐसी प्रविष्टि मिलने से प्रार्थी का मनोबल कमजोर हुआ है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी के वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के कॉलम 2. में दी गयी प्रविष्टि के उन्नयन एवं कॉलम 01(f)(ii) में दी गयी प्रविष्टि के सुधार हेतु यह प्रत्यावेदन/प्रार्थना पत्र माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत करने की कृपा करें।

सादर

दिनांक- 24.06.2024

भवदीय

(योगेश कुमार चौधरी)  
सिविल जज जू०डि०  
उतरौला बलरामपुर  
तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम बलरामपुर  
जे०ओ० कोड- यू०पी० 3653